Trump's gun comment seen as veiled threat against Clinton

gunrights activists could stop threat of violence against his

Phelps &

Ledecky

shine on

Rio De Janeiro, Aug 10:

Michael Phelps won two

gold medals on Tuesday,

avenging his 200 metres

butterfly defeat from the

London Olympics and then

anchoring the US 4x200

freestyle team to victory on

a night of high drama and

Katie Ledecky of the

United States won her sec-

ond gold medal of the meet-

ing and Hungary's Katinka

Hosszuherthird, extending

women's swimming infeats

that on any other day would

Instead it was Phelps,

the most successful

Olympian of all time, who

stole the limelight, extend-

inghiscareermedaltallyto

25 by adding golds number

20 and 21. In the 200 butter-

fly, he touched the wall in

one minute, 53.36 seconds

to beat Japan's Masato

Sakai by 0.04 seconds, with

Kenderesi taking the

bronze. Chad Le Clos of

South Africa, Phelps' con-

queror four years ago, fin-

Hungary's Hosszu, who

despite five world titles had

come away empty-handed

from three previous

Olympics, won her third

gold medal with victory in

the women's 200 individual

Boxer Vikas, Atanu

Former Asian Games gold

medallist Vikas Krishan

(75kg) gave a perfect start to India's boxing campaign in the Olympics, beating American green-

horn Charles Conwell to enter the pre-quarterfi-

Meanwhile, India's only male archer in Rio, Atanu

Das, put in an exceptional

performance to enter the

men's individual round of 16 with a 139-135 win over Cuba's Adrian Andres

Puentes Perez. In a

thrilling best of five sets en-

counter, that lived up to its

billing, Das edged out his opponent 28-26, 29-26, 26-27,

27-28, 29-28, punching

above his weight. *Agencies*

Netflix fuels

a surge in

TV shows

Aug 10: The great scripted-TV boom is showing no

By year's end there could be anywhere from 430 to 450 scripted television shows, which would serve, once again, as a record for the industry, said John Landgraf, chief executive of FX Networks. In 2015 there were 417 scripted TV shows—near-

ly double the 210 that were

on the air in 2009, FX's research department said.

Andwhoisresponsible for all the growth? Streaming

services like Amazon, Hu-

Through July, 322

scripted shows were

broadcast, a 6% rise from

the 304 at this point last

year. And while basic ca-

ble, premium cable and

the broadcast networks

are relatively steady in

volume year over year,

digital services have had

enormous increases: 49

shows have appeared on

streaming services so far

this year.

lu and Netflix.

scripted

signs of abating.

nals here on Tuesday.

archer shine

Hungary's

ishedfourth.

medley.

Tamas

Reuters

have grabbed top billing.

dominance

emotion in the pool.

golden

night

Washington, Aug 10: Ignit- Hillary Clinton from winning inganew controversy, Repub- the polls and picking new lican presidential nominee Supreme Court judges, a re-Donald Trump has said that mark strongly criticised as a

Democratic rival.

"Hillary wants to abolish, essentially abolish the Second Amendment. By the way, if she gets to pick her judges,

nothing you can do folks. North Carolina on Tuesday. Though the Second Amendment people, may be there is, I don'tknow,"Trumpsaidatan election rally in Wilmington,

J&K Bank

PARTICULARS

Total income from operations (Net)

Net Profit/ (Loss) for the period after

Net Profit/ (Loss) from ordinary

tax (after Extraordinary items)

Reserves (excluding Revaluation

extraordinary items) (₹ 1/- each)

Earnings Per Share (before

Reserve as shown in the Balance Sheet

Earnings Per Share (after extraordinary

activities after tax

Equity Share Capital

of previous year)

items) (₹ 1/- each)

Basic:

Diluted

Basic:

Diluted:

The US Constitution's Second Amendment guarantees a right to bear firearms. Trump's comments were

EXTRACT OF STANDALONE REVIEWED

FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER

ENDED 30TH JUNE, 2016

Quarter Ended

30.06.2016

Reviewed

178905

2288

2288

4849

637548

0.47

0.47

0.47

The above is an extract of the detailed format of the standalone reviewed

financial results for the Quarter ended June 30, 2016 filed with the Stock

Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure

Requirements) Regulations, 2015. The above disclosure is made as per revised

SEBI guidelines. The full format of the quarter ended Financial Results are

available on the Stock Exchange websites. www.nseindia.com,

www.bseindia.com and on Bank's website www.jkbank.net

interpreted by many as a threat of violence against his Democratic rival with Clinton campaign decrying theremark as "dangerous." PTI

CIN: L65110JK1938SGC000048

Quarter Ended

30.06.2015

Reviewed

188835

15876

4849

606156

3.27

3.27

3.27

3.27

For and on behalf of the Board

Mushtaq Ahmad

Chairman & CEO

DIN: 01226134

(₹ in Lacs)

Quarter Ended

31.03.2016

Audited

180533

(5602)

(5602)

4849

637548

(1.16)

(1.16)

(1.16)

(1.16)

SOUTH DELHI MUNICIPAL CORPORATION

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER (PROJECT-II) WZ Under Dabri Flyover (In between Pier No. 3 to 5), New Delhi-110058 (E-mail us at:- eeproject2wz@gmail.com)

(Phone Number: 011-25554096) NIT No. E.E. (Project-II)WZ/TC/2016-17/11 Dated: 09.08.2016

NOTICE INVITING TENDER The Executive Engineer (Project-II) West Zone invites on behalf of the Commissioner, SDMC online tenders from the approved and eligible contractors registered with General Wing. Tenders will be received as per time table and will be opened on 31.08.2016 at 3.30 P.M. in the office of S.E. (Project) West at Near Moti Nagar Flyover, Opposite Fire Station, Moti Nagar, New Delhi -110015.

Last Date of Download of : 29.08.2016 at 14.00 hrs. tender document

Last Date of Bid Preparation: 29.08.2016 at 15.00 hrs. & Hash Submission

Close for bidding : 29.08.2016 at 15.01 to 18.00 hrs. Re-encryption of online bid : 29.08.2016 at 18.01 hrs. to 31.08.2016 at 15.00 hrs.

: 31.08.2016 at 15.30 hrs. Opening of financial bid Bidding documents can be downloaded from online website http://mcdetenders.com. Name Head of Tender Estimated **Earnest Time of**

No. of Work A/c Amount Cost Money compl- Strengthening of road by providing dense carpeting from M.C. Pry School opposite Plot No. 2 and Community Hall opposite Plot No. 123

at Ranholla village in West Zone by pdg. 0 from (by providing BM and AC) in Kanwar Singh Nagar. (2) Improvement Development of road from WZ-72 Mukherji park to BSES office by pdg. Dense Carpeting from in C-106/WZ in Tagore Garden SH:1 Improvement Development of road from E-1 Tagore Garden Extn. to E-46 Tagore Garden Extn. by pdg.Dense Carpeting from In C-106/WZ in Tagore Garden SH:2 Improvement Development of road from E-232 Tagore Garden Extn. to E-287 Tagore Garden Extn. by pdg. Dense Carpeting from in C-106/WZ in Tagore Garden SH: 3 Improvement Development of road from Kendriya Vidhyalaya Tagore Garden to Masjid by pdg. Dense Carpeting from in C-106/WZ in Tagore Garden SH: 4 Improvement Development of road from WZ-47 Mukherji Park to WZ-68 Mukherji park by pdg. Dense Carpeting from in C-106/WZ in Tagore Garden SH: 5 Improvement Development of road from WZ-36, Mukherji Park to WZ-6, Mukherji Park [WZ-36 Mukherji park -- WZ-6 Mukherji Park] by pdg. Dense Carpeting from in C-106/WZ in Tagore Garden.

K-150-1264 Item Rate Ward No.121 Rs.55,10,000/-Item Rate Ward No.106 Rs.51,31,800/- 2,56,000/- Months Rs. 1,06,41,800/-

FTC No. 16/66/K-150/1264/NP.

(1) Improvement Development of road from WZ-17 Santgarh to Shamshan Ghat by pdg. Dense Carpeting from in Major Bhupinder Singh Nagar SH: 1 Improvement Development of road from BSES office to D-block M C primary school, Chand Nagar, Khyala [BSESoffice --] by pdg.Dense Carpeting from in Major Bhupinder Singh Nagar (2) Improvement Development of road from E-Block, Tilak Vihar to D-Block, Tilak Vihar [E-Block Tilak Vihar -- D-Block Tilak Vihar] by pdg. Dense Carpeting from in Vikas Puri East SH:1 Improvement Development of road from GG-I/196, Vikas Puri to GG-I/45, Vikas Puri [GG-I/196 Vikas Puri -- GG-I/45 Vikas Puri] by pdg. Dense Carpeting from in Vikas Puri East SH: 2 Improvement Development of road from GG-I/181, Vikas Puri to GG-I/198, Vikas Puri [-- GG-I/198 Vikas Puri] by pdg. Dense Carpeting from in Vikas Puri East SH:3 Improvement Development of road from J-15, Vikas Puri to Andh Vidhyalaya [J-15] Vikas Puri -- Andh Vidhyalaya] by pdg. Dense Carpeting from in Vikas

K-150-1264 Item Rate Ward No.115 Rs. 50,12,400/- Rs. Item Rate Ward No.116 Rs. 46,89,700/- 2,34,700/- Months Rs. 97,02,100/-

FTC No. 16/66/K-150/1264/NP

Construction of Gym at Ground Floor & Underground Water

Storage Tank, Pump House, Boundary Wall and Rain Water Harvesting system by using RCC, CC 1:2:4, Brick Work, Stone Work, Marble Wash Plaster etc. at Hari Nagar in C-111 in WZ (Part B Demolishing existing old structure).

G-110-3011 Rs. 95,66,584 99,44,500/-2,39,200/- Months FTC No. 16/66/G/110-3011/NP

Tender Cost for the work is Rs.1000/-. Rates hold good for 5 The detailed NIT can be seen in the office of undersigned.

R.O. No. 102/DPI/South/2016-17 E.E. (Project-II) West Zone

BERTY



SENORITA

EXTRACT OF UNAUDITED STAND ALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE 1ST QUARTER ENDED 30TH JUNE, 2016

₹ in Lakh except Shares & EPS

Sr. No.	Particulars	Three months ended 30th June, 2016	Year ended 31st March, 2016	Three months ended 30th June, 2015	
		Unaudited	Audited	Unaudited	
1	Total income from operations (Net)	11,997.19	45,416.53	11,008.04	
2	Net profit/loss from ordinary activities after tax	274.95	1,020.74	341.89	
3	Net profit/loss for the period after tax (after extraordinary items)	274.95	1,020.74	341.89	
4	Equity share capital	1,704.00	1,704.00	1,704.00	
5	Reserves (excluding revaluation reserve) as shown in the balance sheet of previous year		13,811.88	_	
6	Earnings per share (before extraordi- nary items) (of ₹10/- each)				
	Basic :	1.61*	5.99	2.01*	
	Diluted :	1.61*	5.99	2.01*	
	Earnings per share (after extraordi- nary items) (of ₹10/- each)				
	Basic :	1.61*	5.99	2.01*	
	Diluted :	1.61*	5.99	2.01*	

*Not Annualised

NOTES:

1. The above is an extract of the detailed format of First Quarter Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the First Quarter Financial Results are available on the Stock Exchange websites (www.nseindia.com and www.bseindia.com) and on the website of the Company (www.libertyshoes.com)

2. The Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 (IND AS) are not applicable to the Company for the guarter ended 30th June, 2016, hence details of the total comprehensive income for the period have not been furnished.

3. A Limited Review as required under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 has been

completed on the detailed financial results for the guarter ended 30th June, 2016 and filed with the Stock Exchanges. This report does not have any impact on the "Results and Notes" for the quarter ended 30th June, 2016 which needs to be explained.

Place: Gurugram, Haryana Date: Wednesday, 10th August, 2016

Regd. Office: Libertypuram, 13th Milestone, G.T. Karnal Road, Kutail, P.O. Bastara, Distt. Karnal-132 114 (Haryana)

Corporate Office: 2nd Floor, Building No. 8, Tower-B, DLF Cyber City, Phase-II, Gurugram-122 002 (Haryana)

E-mail: investorcare@libertyshoes.com, Website: www.libertyshoes.com, CIN: L19201HR1986PLC033185

For and on behalf of Board of Directors For Liberty Shoes Ltd.

> ADESH KUMAR GUPTA CHIEF EXECUTIVE OFFICER DIN: 00143192

PNC INFRATECH LIMITED

REGD. OFFICE: NBCC Plaza, Tower-II, 4th Floor, Pushp Vihar, Sector-V, Saket, New Delhi-110017 CORP. OFFICE: 3/22-D, Civil Lines, Agra-Delhi Bypass Road, Agra-282002 Contact No.: 011-29574800, 0562-4054400, Fax No.:0562-4070011, Website: www.pncinfratech.com E-mail: complianceofficer@pncinfratech.com

NOTICE is hereby given that pursuant to provisions of Regulation 29 & 47 of SEBI Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Wednesday, the 24th day of August, 2016 at its Corporate office at 3/22-D, Civil Lines, Agra-Delhi Bypass Road, Agra inter alia to consider and approve un-audited financial results of the Company for the guarter ended 30th June, 2016.

The information contained in the Notice is available on the website of the Company www.pncinfratech.com and also on the website of BSE Limited www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited www.nseindia.com

August 10, 2016

For PNC Infratech Limited Devendra Kumar Agarwal Chief Financial Officer

S. No.

CROWN TOURS LIMITED

Registered Office: Opp. Rajputana Sheraton Hotel, Palace Road, Jaipur-302006,
Tel. 0141-4156032 CIN: L63040RJ1989PLC004942 Website: www.crownjaipur.org, E-mail: finance@crownjaipur.org

POSTAL BALLOT NOTICE

Members are hereby informed pursuant to Section 110 of the Companies Act, 2013 read with Rule 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 that the Company has completed the dispatch in the permitted mode of Postal Ballot Notice along with the Postal Ballot Form and a self-addressed business reply envelope to the shareholders who have not registered their e-mail ids with Depositories/Company and through email through Link Intime (India) Private Limited to the shareholders who have registered their e-mail ids with Depositories/Company on Wednesday, 10th August, 2016 for seeking approval of the shareholders of the Company by Postal Ballot, including voting by electronic means, on the matter as detailed in the Notice along with explanatory statement sent to members. The Notice has been sent to all the shareholders, whose names appear on the Register of Members / List of Beneficial Owners on 5th August, 2016. The Company has appointed Mr. Pradeep Pincha, Practicing Company Secretary, as a Scrutinizer for conducting the Postal Ballot process in a fair and transparent manner. The detailed procedure for e-voting is enumerated in the Postal Ballot Form. Shareholders can cast their vote online from Thursday, 11 August, 2016 from 09:00 a.m. to Friday, 09th September, 2016 till 5:00 p.m. The shareholders can opt for any one mode of voting. In case, shareholder(s) cast vote by sending physical form as well as vote through e-voting, then voting done through evoting shall prevail and voting done by physical form shall be treated as invalid. Notice and Form of Postal Ballot is also available on website of the Company viz. 'www.crownjaipur.org' as well as on CDSL's website viz. www.cdslindia.com. Members, who have not received postal ballot forms may apply to the company and obtain a duplicate thereof. Duly completed Postal Ballot Form should reach the Scrutinizer not later 5:00 p.m. on Friday, 09th September, 2016 at the address - The Scrutinizer, C/o, Crown Tours Limited, Opp. Rajputana Sheraton Hotel, Palace Road, Jaipur-302006. The voting period for e-voting module also ends on Friday, 09th September, 2016. Any postal ballot received from the members beyond the above said date will not be valid and voting whether by post or by electronic means shall not be allowed beyond this date. The result of the Postal Ballot would be announced on Saturday, 10th September, 2016 at the Registered Office of the Company. For any grievances / queries connected with the voting by postal ballot including voting by electronic means, shareholders may contact Mr. Abhinav Gautam, Company Secretary at the Registered Office of the Company situated at Opp. Rajputana Sheraton Hotel, Palace Road, Jaipur-302006 or through email at finance@crownjaipur.org or at telephone numbers 0141-4156032. By order of the Board

For Crown Tours Limited

Place: JAIPUR Date: 10.08.2016 **Abhinay Gautam**

Place: Srinagar Dated: August 10, 2016

Company Secretary

ALIROX ABRASIVES LIMITED (CIN NO. L74899DL1944PLC000759), Regd. Office: 4, Scindia House, New Delhi - 110 001,

Phone:-911123457100, Fax:-911123324136, Website: www.alirox.com **UNAUDITED STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30.06.2016**

Particulars	Quarter ending 30.06.2016	Previous Year ending 31.03.2016	Quarter ending 30.06.2015
Total income	6.85	34.16	7.10
Net Profit / (Loss) from ordinary activities after tax	(0.21)	0.75	1.32
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Extraordinary items)	(0.21)	0.75	1.32
Equity Share Capital	24.00	24.00	24.00
Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of previous year)	166.67	163.38	161.87
Earnings Per Share (before extraordinary items) (of RS 10 each)			
Basic/Diluted	(0.09)	0.32	0.55
Earnings Per Share (after extraordinary items) (of RS 10/- each)			
Basic/Diluted	(0.09)	0.32	0.55

Note: 1. The above is an extract of the detailed format of Quarterly Standalone Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the stock exchange website www.msei.in and the Company's website www.alirox.com 2. Adhirath Power and Holdings Pvt. Ltd., has been incorporated as a wholly owned subsidiary of the Company on 12th May' 16.

For & on behalf of the Board of Directors

Dated: 10-08-2016 New Delhi

Leena Rawal Whole Time Director & CEO Din: 03575675

RAMA STEEL TUBES LIMITED CIN No. L27201DL1974PLC007114

Regd. Office: No. 7, 1st Floor, Surya Niketan, Vikas Marg, New Delhi-110092 E-mail ID: info@ramasteel.com, investors@ramasteel.com, Website: www.ramasteel.com Ph. No. 011-43656667, 43656668, Fax No. 011-43656699

Extracts of the consolidated Financial Results for the Quarter ended 30th June 2016

	(₹ In Lac	s except EPS
Quarter ended on		
30.06.2016 (Unaudited)	31.03.2016 (Unaudited)	30.06.2015 (Unaudited)
6,561.07	8,067.36	5,289.76
260.86	229.69	48.14
260.86	229.69	48.14
746.70	746.70	149.34
1,825.41	1,825.41	1,820.44
1.75	1.54	3.22
1.75	1.54	3.22
	30.06.2016 (Unaudited) 6,561.07 260.86 260.86 746.70 1,825.41	Quarter ended of 30.06.2016 (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) 6,561.07 8,067.36 260.86 229.69 746.70 746.70 1,825.41 1.75 1.54

1. The above Quarterly Yearly Financial results duly reviewed by the Audit committee, have been approved by the Board of Directors in its meeting held on 10.08.2016.

Standalone Results as on 30.06.2016 are as under :-			
Particulars	Quarter ended (30.06.2016)	Quarter ended	Corresponding Quarter ended (30.06.2015)
Net Sales / Income From Operations	5,518.50	7,344.21	4,973.79
Profit Before Tax	324.60	401.57	56.99
Profit After Tax	217.72	253.69	38.99

The EPS for the Quarter ended 30.06.2016 and Quarter ended 31.03.2016 are calculated upon 1,49,34,000 Equity Shares of Rs. 5/- each while for Quarter ended 30.06.2015 it is calculated upon 14,93,400 Equity

The above is an extracts of the detailed format of Quarterly financial Results filed with the Stock Exchange in accordaince the Listing Regulations. The full format of the Quarterly Results are available on the Stock Exchange Websites viz. www.nseindia.com & www.bseindia.com and on the Company's website www.ramasteel.com

Place: New Delhi Date: 10.08.2016

For Rama Steel Tubes Ltd. Naresh Kumar Bansal Managing Director DIN: 00119213

ि ओरियन्ट्रल बैंक ऑफ कामर्स (भारत सरकार का उपक्रम)

सूचना कब्जा (अचल सम्पत्ति हेतु)

जहाँ कि, अधोहस्ताक्षरी ने, जो कि प्रतिभूतिकरण एवं वित्तिीय आस्तियों के पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन ओरियन्टल बैंक ऑफ कामर्स का प्राधिकृत अधिकारी है तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम-9 के साथ पिटत घारा -13(12) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऋणकर्ता / गारंटर को एक मांग नोटिस जारी किया था, जिसमें कि उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर नोटिस में उल्लिखित राशि, ब्याज सहित चुकाने की मांग की गई थी। चुँकि ऋणकर्ता राशि को चुकाने में असमर्थ रहा है, एतदद्वारा ऋणकर्ता एवं आम जनता को यह सूचित किया जाता है कि अधोहस्तक्षरी ने उक्त नियमों के नियम-9 के साथ पठित उक्त अधिनियम की घरा 13(4) के अधीन दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे उल्लिखित संपत्ति पर इस दिन (नीचे दिये गये ब्यौरे के

एतद्द्वारा ऋणकर्ता को विशेषतः और जनता को साधारणतः सूचित किया जाता है कि इस संपत्ति से कोई सरोकार न रखें तथा इस संपत्ति से संबंध रखने पर ओरियन्टल बैंक ऑफ कामर्स को निम्नानुसार उल्लिखित राशि और उस पर ब्याज का भगतान करने को बाध्य होगा।।

क्र सं0	खातेदार का नाम	बन्धीकृत संपत्ति का ब्यौरा/ सम्पत्ति के स्वामी का नाम		मांग नोटिस 13 (2) के अनुसार बकाया राशि + ब्याज (रू0 में)
शा	खा :- नाका सतरीक,	बाराबंकी, फोनः 05248-225630		
40.000.00	स्व0 मो0 इशाक। वर्तमान बकाया	मकान स्थित खसरा सं. 351, आजाद नगर, पइसर-1, नवाब गंज, बाराबंकी। कुल क्षेत्रफलः 1300 वर्ग फिट। मालिकः श्री मुश्ताक अली पुत्र मो0 इशाक। चौहद्दीः पूरबः प्लॉट सं. ८ घनी; पश्चिम्ः उबेदुर रहमान का मकान; उत्तरः खेत घसीटन; दक्षिणः 15 फिट रोड।	120	+देय ब्याज एवं
2.	धर्मकांटा प्रो0 श्री प्रताप गुप्ता। वर्तमान बकाया	(1) सम्यक बंधक निर्माण प्लॉट एवं मशीनरी स्थित खसरा सं. 185 मिन स्थित ग्राम प्यारेपुर सरैया, परगना प्रतापगंज, तहसील नवाबगंज, जिला बाराबंकी। कुल क्षेत्रफलः 0.0460 हेक्टेयर। मालिकः श्री कुंज बिहारी गुप्ता पुत्र श्री घिरक। चौहद्दीः पूरबः क्रेता की भूमि; पश्चिम्: विक्रेता की भूमि; उत्तरः क्रेता की भूमि; दक्षिणः वंसी लाल का मैदान। (2) सम्यक बंधक फैक्ट्री भूमि एवं भवन (शेड, गोदाम) स्थित पुराना खसरा सं. 139, 140/1, 140/2 एवं नया खसरा सं. 192, 186, 187 फैजाबाद रोड पर स्थित ग्राम प्यारेपुर सरैया, परगना प्रतापगंज, तहसील नवाबगंज, जिला बाराबंकी। कुल क्षेत्रफलः 0.0606 हेक्टेयर (6520.56 वर्ग फिट)। मालिकः श्री कुंज बिहारी गुप्ता पुत्र श्री घिरक। चौहद्दीः पूरबः राम सिंह की भूमि; परिचम् राम दुलारे की भूमि; उत्तरः फैजाबाद रोड; दक्षिणः वंसी लाल की भूमि।	- 08.08.2016	+देय ब्याज एवं
दि	नांकः 11.08.2016, र	थानः लखनऊ प्राधिकृत अधिकार	री, ओरियन्टल	बैंक ऑफ कामर्स

N E C C LOGISTICS LIMITED

9062/47, Ram Bagh Road, Azad Market, Delhi - 110006 Email ID: csl@neccgroup.com, Tel No.: 011-23517516-19 CIN: L74899DL1985PLC019748

Statement of Unaudited Financial Result for

the Quarter ended 30th June, 2016					
Particulars	Quarter ended 30.06.2016 (Current 3 Months ended) (Unaudited)	Year to date Figure for current period ended (30.06.2016) (Unaudited)	(Rs. In Lacs) Corresponding 3 Months ended in the previous year (30.06.2015) (Unaudited)		
Total income from operations (net)	2.02	2.02	0.00		
Net Profit / (Loss) from ordinary activities after tax	0.16	0.16	-1.14		
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Extraordinary items)	0.16	0.16	-1.14		
Equity Share Capital	449.46	449.46	449.46		
Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of previous year)	-271.69	-271.69	-196.67		
Earnings Per Share (before extraordinary items) (of ₹ 10.00/- each) Basic: Diluted:	0.00	0.00	-0.03		
Earnings Per Share (after extraordinary items) (of ₹10.00/- each) Basic: Diluted:	0.00	0.00	-0.03		

NOTES:

Date: 10.08.2016

Place: Delhi

Diluted:

- The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the website of Stock Exchange at http://www.dseindia.org.in/ and Company at http://www.neccgroup.com/ necc-logistics/. The above Unaudited financial results for the first quarter ended June 30, 2016 were reviewed by the
- Audit Committee and thereafter approved by the Board of Directors at their Meeting held on August 10, 2016.
- The above Unaudited financial result is subject to Limited Review Report as furnished by the Statutory Auditors and approved by the Board of Directors of the Company as required under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

For N E C C Logistics Limited Sunil Kumar Jain (Managing Director) DIN: 00010695

AMULYA LEASING AND FINANCE LIMITED

CIN: L65999DL1985PLC022723 Regd. Office: 37, Hargobind Enclave, Vikas Marg, New Delhi - 110092

Extract of Unaudited Consolidated Financial Results for	the quarter e	ended 30 th .	
PARTICULARS	Quarter Ended 30.06.2016 Unaudited	Year Ended 31.03.2016 Audited	Quarter Ended 30.06.2015 Unaudited
Total Income from operations (Net)	7,051.17	20,834.65	5,242.02
Net Profit/ (Loss) from Ordinary activities after tax	262.96	500.86	111.77
Net Profit/ (Loss) for the period after tax (after extraordinary items)	262.96	500.86	111.77
Equity Share Capital	499.735	499.735	499.63
Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of previous year)	-	2,398.30	5
Earning Per Share (before extraordinary items) (of Rs. 10/- each) Basic: Diluted:	5.26 5.26	10.02 10.02	2.24 2.24
Earning Per Share (after extraordinary items) (of Rs. 10/- each) Basic:	5.26	10.02	2.24

- Note: The above Consolidated Unaudited Financial Results have been reviewed by Audit Committee on 10.08.2016. and approved and taken on record by the Board of Directors in their meeting held on 10.08.2016.
- The consolidated financial statement have been prepared in accordance with AS-21 issued by ICAI and comprise the financial results of Amulya Leasing & Finance Limited and its subsidiary M/s. Apollo Pipes Limited.
- The standalone results of the Company are available at company's and stock exchange website i.e. www.amulyaleasing.in and www.bseindia.com.
- The Holding Company is a NBFC and Subsidiary company is exclusively dealing in manufacturing and trading of
- PVC Pipes & Fittings, hence based on the guiding principles given in Accounting Standard 17 " Segment Reporting" issued by the Institute of Chartered Accountants of India, business segment wise results are mentioned below:

PARTICULARS	Investment Segment	PVC Pipes & Fittings Segment	Consolidated Amount
Revenue from Operations		705,116,624	705,116,624
Total Expenses	392,997	627,675,451	628,068,448
Total Operating income	(392,997)	77,441,173	77,048,176
Other income	7,650	224,828	232,478
Profit Before tax	(385,347)	77,666,001	77,280,654
Tax Expense		25,678,710	25,678,710
Profit After tax	(385,347)	51,987,291	51,601,944
Share of Minority			25,305,593
Profit after Minority		-	26,296,351

Previous period figures have been regrouped/reclassified/recasted wherever necessary to facilitate comparison. 6. The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the

Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange website i.e. www.bseindia.com. For Amulya Leasing and Finance Limited

5.26

10.02

2.24

Sameer Gupta Place: New Delhi **Managing Director** Date: 10.08.2016




Place: New Delhi

Date: 10.08.2016

CIN: L01120DL1985PLC092375 Regd. Office: 261, Ground Floor, Okhla Industrial Estate, Phase-III, New Delhi-110020





Notes - (1) The above is an extract of the details format of quarterly unaudited Financial Result filled with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirments) Regulations, 2015. The detailed financial result are available on the website of Bombay Stock Exchange (www.bseindia.com) and the company's website; www.megacorpltd.com

- (2) The above unaudited results, reviewed by the Audit Committee were taken on record, by the Board of
 - Directors in the meeting held on 10th August, 2016. (3) Provision for Taxation & Deferred tax adjustment will be considered at the end of the year.
 - (4) Previous Year/ Qtrs. Have been regrouped/ rearranged, wherever necessary.

 - (5) Status of investor Complaints: Pending as on 01.04.2016 Nil, Received: Nil, Resolved: Nil, Pending
 - (6) The Company has initiated process of amalgamation of its subsidiary Mega Airways Ltd. with itself pursuant to the Section 391 to 394 of the Companies Act, 1956, Subject to the approval of Hon'ble High Court, Delhi

For Mega Corporation Limited

-योजना आरंभ होने की तिथि : 11.08.2016

- प्राप्त रेटिंग

ज) प्राप्त हुई क्रेडिट रेटिंग :

- प्राप्त रेटिंग का अर्थ

डा) जमाराशि बीमा की सीमा

प्रभार यदि कोइ

- क्रेडिट रेटिंग एजेन्सी का नाम

- तिथि, जिसको रेटिंग प्राप्त हुई

ऐसी जमाराशियों की प्रतिभृति हेत् सुजित/सुजित किए जाने वाले

अथवा केएमपी'ज का हित अन्य

बकाया जमाराशियों का विवरण

(1.4.2013 से 31.3.2016 तक)

छ) जमाराशियों पर उत्पन्न ब्याज पर

जमाकर्ताओं द्वारा कोई परित्याग

ट) ऐसी जमाराशियों में निदेशकों

व्यक्तियों के हित से भिन्न

क) बकाया राशि (31.3.16 को)

ग) स्वीकार की गई कुल राशि

क) जमाकर्ताओं की कुल संख्या

4. कम्पनी की वित्तीय स्थिति

वर्ष समाप्त

31.03.2014

31.03.2015

31.03.2016

इक्विटी एवं दायतव

संचित तथा अतिरिक्त

गैर-चालू दायतव

चालू दायतव

अचल सम्पत्ति

चालू सम्पत्ति

विवरण

गैर-चालू निवेश

दीर्घावधि ऋण और अग्रिम

घ) नकदी प्रवाह विवरण

क. प्रचालन गतिविधियाँ (में प्रयुक्त)/से जनित

निवेश गतिविधियाँ

वित्तीय गतिविधियों (में प्रयुक्त)/से जनित

समतुल्यों (क+ख+ग) में

दिवालिया नहीं होगी।

अनुपालन किया है।

देयताओं के समान मान्य होंगी।

निदर्शित प्रयोजनों के लिए ही किया जाएगा।

अप्रत्याभूत देयताओं के समान मान्य हैं।

कम्पनी रजिस्टार के पास जमा की गई है।

।। की अपेक्षाओं के अनुरूप बनाई गई है।

निदेशकगण एतदद्वारा घोषणा करते हैं कि :

(में प्रयुक्त) शुद्ध नकदी

शुद्ध नकदी

शुद्ध नकदी

नकदी और नकदी

शुद्ध वृद्धि/(कमा)

योग

सम्पत्ति

शेयर पूंजी

ख) खीकार करने की तिथि

घ) ब्याज की दर

(31.3.2016 को)

च) चुक, यदि कोई

क) लाम/(हानि)

ख) लाभांश

-सर्कुलर/विज्ञापन की वैधता : 30.09.2017 अथवा अगली एजीएम

Sd/-Surendra Chhalani (Director & CFO) DIN: 00002747

⊕ DCM SHRIRAM

सावधि जमा योजनाऊ के तहत दी

की तिथि जो पहले हो

जरूरोतों की पूर्ति

केयर बीबीबी (एफडी)

वित्तीय दायित्वों की

13.10.2015

ः लागु नही

ः कोई नहीं

জ. 485 লাভ্র

: 1.4.2013 से 31.3.2016 तक

9.75 प्रतिशत वार्षिक से 10.5

प्रतिशत वार्षिक तक

कोई चुक नहीं

कोई परित्याग नहीं

3 वित्तीय वर्ष हेत्

कर पश्चात

2900

438

3324

को

1740

21094

14538

61900

99272

को

32791

614

3342

62525

99272

वर्ष समाप्त

(4583)

(2461)

7119

75

लाभाश

35%

10%

30%

31.03.2015 31.03.2014

31.03.2015 31.03.2014

31.03.2015 31.03.2014

(रू./लाख

1740

21424

14117

57641

94922

31141

614

2696

60471

94922

(জ./লাভা)

18588

(3884)

(15203)

वर्ष समाप्त

को

लाभ/(हानि) रू./लाख

कर पूर्व

4569

1166

3871

ग) तीन लेखापरीक्षित तुलन पत्रों में वित्तीय स्थिति का संक्षिप्त विवरण

31.03.2016

1740

23789

14047

66494

106070

31.03.2016

32871

614

4212

68373

106070

31.03.2016

6773

(1820)

(4,837)

116

नहीं है, सिवाय मूल्यहास नीति, जो कम्पनी अधिनियम, 2013 लागू होने की तिथि अर्थात 1-4-2014 के प्रभाव से अधिनियम की अनुसूची

कम्पनी ने उसके द्वारा स्वीकार की गई जमाराशियों अथवा उसका ब्याज

चुकाने में, अधिनियम के लाग होने से पहले या उसके बाद, कोई चुक

पूर्ण संतुष्टि की है तथा उनका मत है कि जहां तक कम्पनी की

पूर्वानुमानित भावी वित्तीय स्थिति का संबंध है, कम्पनी अपनी देयताओं

के देय होते ही, उनकी पूर्ति कर सकेगी तथा कम्पनी सर्कुलर अथवा

विज्ञापन जारी करने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर

कम्पनी ने अधिनियम के प्रावधानों और तदधीन बनाए गए नियमों का

अधिनियम और नियमों के अनुपालन का तात्पर्य यह नहीं है कि

चुका दी गई हैं अथवा देय तिथियों को ब्याज समेत चुका दी जाएंगी

और जबतक चुका नहीं दी जाती हैं, वे अप्रत्याभूत और अन्य अप्रत्याभूत

पास अपनी जमाराशियां बिना किसी आर्थिक दंड वापस प्राप्त करने का

जमाराशियों का उपयोग सर्कुलर अथवा विज्ञापन के रूप में सर्कुलर में

ज) कम्पनी द्वारा स्वीकार की गई जमाराशियां अप्रत्यामूत हैं और अन्य

यह विज्ञापन कम्पनी के निदेशक मंडल के प्राधिकार और नाम में जारी किया गया

है, जिसका पाठ निदेशक मंडल द्वारा 30.05.2016 को आयोजित उनकी बैठक में

अनुमोदित किया गया था और निदेशकों के बहुमत द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रति

बोर्ड के आदेश द्वारा

कम्पनी द्वारा अधिनियम लागु होने से पहले स्वीकार की गई जमाराशियां

च) क्रेडिट रेटिंग में कोई प्रतिकल परिवर्तन होने की स्थिति में, जमाकर्ताओं के

जमाराशियों की चुकौती केन्द्र सरकार द्वारा गारंटित है।

ख) उन्होंने कम्पनी के कार्यों तथा उसकी सभावनाओं के संबंध में अपनी

कम्पनी की लेखांकन नीति में विगत तीन वर्षों के दौरान कोई परिवर्तन

अल्प और मध्यम-अवधि वित्तीय

क्रेडिट एनालिसिस ऐण्ड रिसर्च लि

समयानुसार पूर्ति के संबंध में सामान्य स्तर की सुरक्षा तथा सामान्य क्रेडिट रिस्क

वर्तमान में बीमा उत्पाद उपलब्ध

डीसीएम श्रीराम इन्डस्ट्रीज लिमिटेड

पंजी. कार्यालय : 6ठी मंजिल, कंचनजंगा बिल्डिंग, 18, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली-110001-फोन: 23759300

सीआईएन : एल74899डीएल1989पीएलसी035140,

वेबसाइट : http://www.dcmsr.com ई-मेल : dsil@dcmsr.com) जमाराशियां जुटाने की शते

	सावधि जमा ये	ङ) जमाराशियां जुटाने की शते	
	असंचयी योज	च) प्रस्तावित समय सारण	
अवधि	ब्याज की दर वार्षिक	न्यूनतम स्वीकार्य राशि (रू.)	—योजना आरंभ होने की तिथि —सर्कुलर/विज्ञापन की वैधता
3 वर्ष	10%*	25,000	- cultural cultural and additi
ब्याज तिमाही प	ार देय ***	छ) जमाराशियां जुटाने हेतु कारण	
	संचयी योज	जा	अथवा चद्देश्य

		संचयी योज	ना	
अवधि	वार्षिक ब्याज की दर	न्यूनतम स्वीकार्य राशि (रू.)**	परिपक्वता मूल्य*** (रू.)	प्रभावी वार्षिक प्राप्ति
3 वर्ष	10%*	25,000	33,705	11.60%

- 10.5% कम्पनी के अंशधारियों तथा कर्मचारियों के लिए ** (रू.) 10,000/- कम्पनी कर्मचारियों के लिए.
- *** स्रोत पर कर कटौती के अधीन.

टिप्पणियाँ :-जमाराशियां दिल्ली में देय चैक अथवा बैंक खर्चा काट कर डिमांड

- वापसी भगतान कम्पनी के बँकर्स की सभी शाखाओं पर समान राशि
- हेत् देय चैक द्वारा / बैंक खाते में सीधे जमा द्वारा समय पूर्व राशियों की वापसी कम्पनीज (जमाराशियों की स्वीकृति)
- नियमावली. 2014 के अनसार.
- आवेदन की प्रक्रिया जमाराशियों की स्वीकृति/नवीनीकरण के लिए आवेदन कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय से उपलब्ध फार्म में किया जा सकता है। जमाराशियां रू. 1,000/- के गुणकों में, योजनाओं में दर्शित "न्युनतम
- राशि" की शर्त पर, डीसीएम श्रीराम इंडस्ट्रीज लिमिटेड के पक्ष में आहरित अकाउंट पेयी चैक/डिमांड ड्राफ्ट द्वारा स्वीकार की जाएंगी। ਡੀ ਧੀ ਟੀ-1

जमाराशियां आमंत्रण विज्ञापन के रूप में सर्कुलर (धारा 73(2)(क) एवं धारा 76 एवं कम्पनीज (जमाराशियों की स्वीकृति) नियमावली, 2014 के नियम 4(1) और 4(2) के अनुसरण में,)

1. सामान्य सूचना क) कम्पनी का नाम, पता, वेबसाइट तथा अन्य सम्पर्क विवरण; : डीसीएम श्रीराम इंडस्ट्रीज लिमिटेड पता : 6ठी मंजिल, कंचनजंगा बिल्डिंग, 18,

बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली-110001. वेबसाइट एवं अन्य सम्पर्क विवरण वेबसाइट http://www.dcmsr.com ई-मेल dsil@dcmsr.com

फोन 23759300 ख) निगमन की तिथि : 21 फरवरी, 1989 ग) निष्पादित किया जा रहा व्यवसाय : कम्पनी शुगर, ऐल्कोहल,

इकाईया

नाम

	फाइन इंडस्ट्रियल फाइबर्स बिक्री और ऊर्जा के	के
	बिक्री के व्यवसाय में	
;		
 राज्य	 राज्य	

-0.0-		0
नाम	पता	व्यवसाय
पूर्णकालिक निर्देशके निर्देशों के अनुसार कि	ों द्वारा निर्देशक मण्डल के पर्य	वेक्षण, कन्ट्रोल ३
प्रबंधन : कम्पनी	का संचालन चेयरमेन एवं प्रबन्ध	निर्देशक तथा अ
अधीनस्थ कम्पनी	दौराला फूड्स ऐंड बिवरेजे	
दौराला ऑर्गैनिक्स		ोराला
श्रीराम रेयन्स	राजस्थान क	ोटा
दौराला शुगर वर्क्स	उत्तर प्रदेश द	रिला

नाम	पता	व्यवसाय
श्री तिलक धर	27, सरदार पटेल मार्ग,	बिजनेस
ভীआईएन : 00204912	नई दिल्ली 110021.	एग्जीक्युटिव
श्री आलोक बी. श्रीराम	27, सरदार पटेल मार्ग,	11
डीआईएन : 00203808	नई दिल्ली 110021.	
श्री माधव बी. श्रीराम	27, सरदार पटेल मार्ग,	11
डीआईएन : 00203521	नई दिल्ली 110021.	
श्री के. एन. राव	एफ-2529, पालम विहार	95
ਡੀआईएन : 06730043	गुड़गांव हरियाणा -122017	
श्री पी. आर. खन्ना	70, सुन्दर नगर,	चार्टर्ड
डीआईएन : 00048800	नई दिल्ली 110003.	अकाउन्टैंट
श्री एस.बी. माथुर	ए-10/10, वसंत विहार,	कंसल्टैंट
डीआईएन : 00013239	नई दिल्ली - 110057.	
श्री रवीन्द्र नारायण	55, सुन्दर नगर,	एडवोकेट
डीआईएन : 00059197	नई दिल्ली 110 003.	
	ए/5बी/69, पश्चिम विहार	
	नई दिल्ली - 110 063	
	फ्लैट नंबर जीडी	सर्विस
ਫੀआईएन : 06900458	जीवन ज्योति, सीतलवाड	
	लेन, ऑफ नेपियनसी	
	रोड मुंबई — 400026	
4.0	7, प्रथम क्रीसेन्ट पार्क स्ट्रीट	50353575955
ਫੀ आईएन : 00139274	गांधी नगर, आडयार	उद्योगपति

ਫੀआईएन : 00139274 गांधी नगर, आडयार चेन्नइ-600020 च) जोखिम घटक के बारे में प्रबंधकगण की मान्यता :

कम्पनी के व्यवसाय जोखिम शुगर इंडस्ट्री की चक्रीय प्रकृती, विदेशी मुद्रा विनिमय दर के उतार-चढ़ावों तथा व्यवसाय के नियंत्रित स्वरूप के साथ जुड़े हैं। तथापि, कम्पनी फार्मस्युटिकल इंटरमीडियरीज, केमिकल्स

तथा रेयन के वर्द्धित प्रभावन द्वारा अपने व्यवसाय माडल के जोखिम कम कर रही है। कौ-जनरेशन तथा अल्कोहल भी मूल शुगर व्यवसाय का घ) जोखिम घटाने में योगदान देते हैं। छ) निम्नलिखित के भगतान/प्रतिभगतान में कोई चुक :

साविधिक देयताएं ऋणपत्र और उन पर व्याज : लागू नही बैंकॉ/वित्तीय संस्थाओं से : शून्य ऋण और उन पर ब्याज

2. जमा योजना के विवरण क) बोर्ड प्रस्ताव पारित करने की तिथि 30.05.2016 24.09.2015 अप्रत्यामृत

ख) ऐसी जमाराशियों के आमंत्रण हेत् एजीएम में प्रस्ताव पारित करने की तिथि ग) जमाराशियों का प्रकार घ) वह राशि जो कम्पनी द्वारा अधिनियम

जमाराशियों की रकम


और तदधीन बनाए गए नियमों के तहत जुटाई जा सकती है। क. 7880 लाख वास्तव में धारित जमाराशियों का कुल योग 31 मार्च, 2016 को

रू. 485 लाख सर्कलर/विज्ञापन की तिथि (30.05.2016) को : रू. 479 लाख जुटाई जाने हेतु प्रस्तावित जमाराशियों की 1.4.16 से 12 माह के भीतर देय

· रू. 1500 लाख तक

: रू. 233 लाख

वाई. डी. गुप्ता स्थान : नई दिल्ली कम्पनी सचिव एवं तिथि : 30.05.2016 वरिष्ठ महाप्रबंधक



ग्रोस आइलेट, 10 अगस्त (भाषा)। रविचंद्रन अश्विन और रिद्विमान साहा के शानदार शतकों की मदद से भारत ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ तीसरे टैस्ट में बुधवार को अपनी पहली पारी में 353 रन बनाए। अश्विन ने 118 रन की धैर्यपूर्ण पारी खेली। यह टैस्ट मैचों में उनका चौथा शतक है। संयोग से उन्होंने अपने सभी शतक वेस्ट इंडीज के खिलाफ बनाए

वहीं साहा (104) ने अपने करियर का पहला शतक लगाया। इन दोनों ने छठे विकेट



के लिए 213 रन की साझेदारी की जो वेस्ट इंडीज के खिलाफ भारत की तरफ से नया रेकार्ड है। यह विदेशी सरजमीं पर छठे विकेट के लिए भारत की दूसरी सबसे बड़ी साझेदारी है। इन दोनों के शानदार प्रयास से भारत पांच विकेट पर 126 रन की खराब शुरुआत से उबरने में सफल रहा। साहा और अश्विन की साझेदारी कितनी महत्वपूर्ण रही इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि इनकी भागीदारी टूटने पर भारत ने आखिरी पांच विकेट 14 रन के अंदर गंवा दिए।

वेस्ट इंडीज की तरफ से अलजारी जोसेफ और मिगुएल कमिंस ने तीन-तीन जबिक रोस्टन चेज और शैनोन गैब्रियल ने दो-दो विकेट लिए। अश्विन ने सुबह काफी धीमी बल्लेबाजी की लेकिन लंच के बाद उन्होंने दूसरे ओवर में ही रोस्टन चेज पर मिड आन पर छक्का जड़कर वर्तमान शृंखला का दूसरा शतक पुरा किया। वह वेस्ट इंडीज के खिलाफ चार या उससे अधिक शतक जड़ने वाले भारत के छठे बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने गुंडप्पा विश्वनाथ और वीवीएस लक्ष्मण की बराबरी की जबकि सचिन तेंदुलकर (तीन शतक) को पीछे छोडा। साहा ने भी इसके बाद शतक परा करने में देर नहीं लगाई। उन्होंने चेज की गेंद पर दो रन लेकर यह उपलब्धि हासिल की। वह विजय मांजरेकर, अजय रात्रा और महेंद्र सिंह धोनी के बाद चौथे भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज हैं जिन्होंने विदेशी धरती पर शतक लगाया। भारतीय क्रिकेट में यह पहला अवसर है जबिक छठे और सातवें नंबर के बल्लेबाज शतक जड़ने में सफल रहे। हालांकि साहा शतक पूरा करने के तुरंत बाद अलजारी जोसेफ की आफ स्टंप से बाहर जाती गेंद पर विकेट के पीछे कैच दे बैठे। उन्होंने अपनी पारी में 227 गेंदें खेली और 13 चौके लगाए।



पीएनसी इन्फ्राटेक लिमिटेड

कॉर्पो. कार्यालय: 3/22-डी, सिविल लाइंस, आगरा-दिल्ली बाईपास, आगरा-282002 संपर्क सं.: 011-29574800, 0562-4054400, Fax No.: 0562-4070011, Website: www.pncinfratech.com, E-mail: complianceofficer@pncinfratech.com

सुचना

सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 29 एवं 47 के प्रावधानों के अनुपालन में एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी के निदेशक मंडल की एक बैठक बुधवार, 24 अगस्त, 2016 को उसके पंजीकृत कार्यालय 3/22-डी, सिविल लाइन्स, आगरा- दिल्ली बाईपास रोड, आगरा में आयोजित की जाएगी जिसमें अन्य विषयों के साथ ही 30 जून, 2016 को समाप्त तिमाही के लिए कंपनी के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार तथा अनुमोदन किए जाएंगे।

सचना में वर्णित विवरण कंपनी की वेबसाईट www.pncinfratech.com तथा साथ ही बीएसई लिमिटेड की वेबसाईट www.bseindia.com तथा नेशनल स्टॉक एक्सचैंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाईट www.nseindia.com पर भी उपलब्ध है।

पीएनसी इन्फ्राटेक लिमिटेड के लिए देवेन्द्र कुमार अग्रवाल 10 अगस्त, 2016 मुख्य वित्त अधिकारी

BDR BUILDCON LIMITED CIN-L70100DL2010PLC200749 Regi. Office- 31, Jangpura Road, Bhogal, New Delhi-110 014

Website: www.bdrbuildcon.com, E-mail: info@bdrbuildcon.com NOTICE OF 6TH ANNUAL GENERAL MEETING

Tel.: 011-2647 7771, Fax No. 011 - 24377204

The Notice is hereby given that:

 the 6th Annual General Meeting (AGM) of the members of BDR BUILDCON LIMITED will be held at the Registered Office of the Company situated at 31, Jangpura Road, New Delhi-110014 on Tuesday, the 06th day of September, 2016 at 11:00 A.M to transact the ordinary business, as set out in the Notice of AGM.

Soft copies of the Notice of AGM and Annual Report for 2015-16 have been sent to all the members whose email IDs are registered with the Depository Participant(s). The same is also available on the Company website http://www.bdrbuildcon.com/ Physical copies of the Notice of AGM and Annual Report for 2015-16 have been

sent to all other members at their registered address in the permitted mode. . Pursuant to section 91 of the Companies Act, 2013, the register of members of the Company will remain closed from Saturday, September 03, 2016 to Tuesday, September 06, 2016 (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting

Date: 09.08.2016 Place: New Delhi

For BDR BUILDCON LIMITED Rajesh Gupta Managing Director

Nalwa Sons Investments Limited

Regd. Office: 28, Najafgarh Road, Moti Nagar Industrial Area, New Delhi- 110015 Phone No. (011) 45021854, 45021812, Fax No. (011) 25928118, 45021982 Email Id. for investors: investorcare@nalwasons.com, Website: www.nalwasons.com Corporate Office: Jindal Centre, 12 Bhikaiji Cama Place, New Delhi - 110 066

EXTRACT OF UNAUDITED STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE, 2016 (₹ In lacs, except per share data)

Sr. No.	Particulars	Three Months Ended	Year Ended	Three Months Ended
2		30th June, 2016	31st March, 2016	30th June, 2015
1	Total income from operations (net)	215.10	1,896.69	259.25
2	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax and Extraordinary items#)	191.19	1,661.34	234.13
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Extraordinary items#)	191.19	1,661.34	234.13
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Extraordinary items#)	122.67	1,376.08	159.37
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)]	122.67	1,376.08	159.37
6	Equity Share Capital	513.62	513.62	513.62
7	Reserves (Excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year		35,808.90	•
8	Earning Per Share (of ₹10/- Each) (for continuing and discontinued operations) -			
	1. Basic:	2.39	26.79	3.10
	2. Diluted:	2.39	26.79	3.10

Notes :-

1. The above results have been reviewed by Audit Committee and aproved by the Board of Directors in their respective meeting held on 9th August, 2016. The statutory auditors have also conducted limited review of the above results

2. The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Company's website (www.nalwasons.com) and websites of Stock Exchanges (www.bseindia.com/www.nseindia.com).

Extraordinary items adjusted in the statement of Profit & Loss in accordance with AS

for NALWA SONS INVESTMENTS LIMITED

Place: Hisar Date: 9th August, 2016

Suresh Jindal Executive Director & C.E.O. DIN: 07541893